



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1944 (श10)

(सं0 पटना 959) पटना, बुधवार 9 नवम्बर 2022

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2022

सं० सं0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-864—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। —

- यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।
- संशोधन अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “40,000/— (चालीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “50,000/— (पचास हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “50,000/— (पचास हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “55,000/— (पचपन हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “15,00,000/— (पन्द्रह लाख) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “25,00,000/— (पच्चीस लाख) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “10,000/— (दस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “15,000/— (पन्द्रह हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “30,000/— (तीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “40,000/— (चालीस हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम-8(क), (ख)(iv), (ख)(v) एवं (घ)(iv) में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम-8(क) की पांचवी पंक्ति, (ख)(iv) की पहली पंक्ति, (ख)(v) के चौथे एवं पांचवे परन्तुक की तीसरी पंक्ति तथा (घ)(iv) की पहली पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “20/— (बीस) रुपये” अंक, शब्द एवं कोष्टक “25/— (पच्चीस) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9(1) में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 (1) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “2000/— (दो हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “3000/— (तीन हजार) रुपये” द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “2500/— (दो हजार पाँच सौ) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “3500/— (तीन हजार पाँच सौ) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “3,00,000/— (तीन लाख) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “4,00,000/— (चार लाख) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “28,000=00/— (अठाईस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “35,000/— (पैंतीस हजार) रुपये” तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “7000=00/— (सात हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “8,000/— (आठ हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “35,000/— (पैंतीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “45,000/— (पैंतालिस हजार) रुपये” तथा छठी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “3,000/— (तीन हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “4,000/— (चार हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन।** — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “1,50,000/— (एक लाख पचास हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्टक “2,00,000/— (दो लाख) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उदय प्रताप सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 959-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>